

प्रेस नोट दिनांक-03-06-2022

(1). श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त मुन्नू यादव पुत्र रामखेलावन निवासी चितउहा पुरवा चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

05 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना पहाड़ी
2. आरक्षी प्रमोद कुमार

(2). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा भोली भाली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाली अभियुक्त 1. दिवाकर उर्फ राजा 2. भास्कर उपाध्यमया उर्फ बउआ पुत्रगण निवासीगण भदेदू 3. संतोष द्विवेदी पुत्र शिवनारायण 4. नीलेश दुबे पुत्र संगमलाल दुबे निवासीगण तीरधुमाऊ गंगू 5. मनीष तिवारी पुत्र रामहंस निवासी रुपौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(3). आज दिनांक 03.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।

(4). दिनांक 02.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने बाजार, विद्यालय, कोचिंग सेंटर, बस स्टैण्ड इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया।

(5). दिनांक-02.06.2022 को शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण महोदय के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया तथा संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों एवं शराब की दुकानों की चेकिंग की गयी। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारी बंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिकों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया।

(6). आज दिनांक 03.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा द्वारा पुलिस लाइन में शुक्रवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिफ्रूट आरक्षियों की परेड का अवलोकन कर प्रभारी आरटीसी को सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बाद परेड महोदय द्वारा पुलिस लाइन का भ्रमण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा परिवहन शाखा, यू0पी0112 कार्यालय, जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस कर्मियों का अर्दली रूम किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइंस श्री धर्मराज यादव, प्रतिसार निरीक्षक श्री सुमेर सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). आज दिनांक 03.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति” के तहत SHO महिला थाना श्रीमती रीता सिंह एवं उनकी टीम द्वारा कोतवाली कर्वी अंतर्गत ग्राम भंभई में जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसे:- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(8). आज दिनांक 03.06.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में जनपद के समस्त थानों के विवेचकों को पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण उ0प्र0 द्वारा सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर के माध्यम से ऑनलाइन रिफ्रेशर विवेचना ट्रेनिंग कार्यशाला। इस ट्रेनिंग में विवेचकों को आधुनिक तरीके से साक्ष्य संकलन के तरीके बताये गये तथा विवेचना निस्तारण हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने हेतु बताया गया।